

# कोविड-19 टीके कैसे बनाए जाते हैं, इस बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न त्रंसक्रिप्ट।

आप शायद अभी कोविड-19 टीकों के बारे में बहुत सारी जानकारी सुन रहे हैं। हम कोविड-19 टीके कैसे बनाए गए हैं इस बारे में कुछ सामान्य सवालों के जवाब देना चाहते हैं।

## कोविड-19 टीके कैसे तेजी से बनाए जाते हैं?

आमतौर पर, टीका सुरक्षित है और काम करता है यह सुनिश्चित करने के लिए, एक टीके का परीक्षण बड़ी मात्रा में टीके बनाए जाने से पहले किया जाता है। महामारी और संघीय सरकार से पैसों की वजह से, वैज्ञानिकों ने एक ही समय में यह दोनों किया। केवल वे टीके जिनका परीक्षण किया गया है और जिन्हें सुरक्षित होना दिखाया गया है उनका ही उपयोग किया जाता है।

## कोविड-19 टीकों का परीक्षण कैसे किया जाता है?

सभी कोविड-19 टीके नैदानिक परीक्षण नामक परीक्षणों से गुजरते हैं। प्रत्येक टीका एक से अधिक परीक्षणों से गुजरता है। सबसे पहले, स्वयंसेवकों के एक छोटे समूह के साथ टीके का परीक्षण किया जाता है, फिर कुछ सौ लोगों, फिर हजारों की संख्या में लोगों में परीक्षण किया जाता है। कोविड-19 टीके के परीक्षणों के लिए स्वयंसेवक कई विविध समुदायों और पृष्ठभूमि से आते हैं। यह वही प्रक्रिया है जिसका उपयोग अन्य टीकों के परीक्षण के लिए किया जाता है।

## कोविड-19 टीकों को कैसे स्वीकृत किया जाता है?

ऐसे टीकों के लिए जो सभी परीक्षणों से गुजरते हैं, चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम परीक्षण के परिणामों पर और टीका लगने के बाद लोगों को कैसे लगा उस पर ध्यान देगी। यदि टीका काम करता है और यह सुरक्षित है, तो यह स्वीकृत हो जाता है। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के कई समूह हैं जो कोविड-19 टीकों के लिए टीका सुरक्षा डेटा की समीक्षा कर रहे हैं और सिफारिशें कर रहे हैं। केवल स्वीकृत टीके ही लोगों को दिए जाते हैं।

## पहले टीका किसे प्राप्त हो रहा है?

CDC के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समूह ने डेटा को देखा और सिफारिश की कि टीका पहले किसे प्राप्त होना चाहिए। कुछ समूह जो कोविड-19 के सबसे अधिक जोखिम पर हैं या कोविड-19 से बहुत बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें पहले टीका प्राप्त हुआ। मिनेसोटा में विशेषज्ञों की एक टीम है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि स्वास्थ्य समानता पर ध्यान देने के साथ टीका सभी को उचित रूप से उपलब्ध हो। जैसे-जैसे समय के साथ अधिक टीका उपलब्ध होता है, अधिक लोगों को टीका लगाया जाएगा।

कोविड-19 टीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट देखें।

Minnesota Department of Health  
Communications Office  
PO Box 64975  
St. Paul, MN 55164-0975  
651-201-4989  
[health.communications@state.mn.us](mailto:health.communications@state.mn.us)  
[www.health.state.mn.us](http://www.health.state.mn.us)

2/9/21 (Hindi)

एक अलग प्रारूप में इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए, इस पर कॉल करें: 651-201-4989/9